



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12—मई 18, 2007 (वैशाख 22, 1929)  
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12—MAY 18, 2007 (VAISAKHA 22, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	577
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	413
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	753
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2057
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	335
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6883
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	323
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	577	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	413	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	2057
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	753	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	335
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	6883
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	323
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

संकल्प

विषय : “इस्पात उपभोक्ता परिषद्” के गठन के बारे में।

सं. 5(3)2004-डी-I(.)--इस्पात मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 नवम्बर 2006 के संकल्प संख्या 5(3)2004-डी-I के माध्यम से दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के अनुसार पुनर्गठित इस्पात उपभोक्ता परिषद् के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के संकल्प के पैरा संख्या के तहत “इस्पात उपभोक्ता परिषद्” संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को एतद्वारा नामित किया जाता है :--

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नामित सदस्य (सदस्यों) का नाम एवं पता	अभ्युक्ति
दादर एवं नगर हवेली	श्री बिपुल कुमार ए. सिंह, 201, श्री कृष्णा चैंबर, चानोद कालोनी, जी.आई.डी.सी. वापी, जिला वलसाड-396195, गुजरात	श्री प्रभु भाई पटेल, ग्राम मसाड, पादरी फालिया, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली के स्थान पर

कुमार अरविंद सिंह देव  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 अप्रैल 2007

सं. एफ. 9-4/1999-यू.3--जबकि “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान”, इलाहाबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 4 अगस्त, 2000 की समसंख्यक अद्विधसूचना के द्वारा पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् समीक्षा की शर्त के आधार पर ‘सम-विश्वविद्यालय’ घोषित किया गया था;

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ‘भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान’, इलाहाबाद के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इसकी समीक्षा कराई है;

3. और जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ‘भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान’, इलाहाबाद को प्रदत्त ‘सम-विश्वविद्यालय’ का दर्जा 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

4. इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार ‘भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान’, इलाहाबाद को प्रदत्त ‘सम विश्वविद्यालय’ का दर्जा पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करती है, बशर्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से एक ‘समीक्षा’ के आधार पर उपर्युक्त दर्जे की पुष्टि करेगा और यह समीक्षा ‘सम विश्वविद्यालय’ दर्जे की वर्तमान अवधि समाप्त होने से पहले ही कराई जाएगी।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में दर्जा जारी रखने की अनुमति उन शर्तों के भी अधीन होगी जो इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की क्रम सं. 4 में उल्लिखित हैं।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अप्रैल, 2007

संकल्प

सं. 10-3/96-आई.एम.वाई./आर.एम.के. (वॉल्यूम-II) (पार्ट)--

राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों एवं विनियमों के नियम 9 (1) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो तत्काल प्रभाव से नामित करती है :-

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
| 1. श्री राकेश मित्तल<br>37, रवि नगर, खजराना रोड़,<br>इन्दौर - 452008 (मध्य प्रदेश)   | के स्थान पर | सुश्री जारजुम एटे<br>अध्यक्ष<br>राज्य महिला आयोग<br>अरुणाचल प्रदेश   |
| 2. सुश्री क्रांति अरुण साठे<br>5, आशीर्वाद, 16वाँ क्रॉस रोड़,<br>खार (पश्चिम) मुम्बई - 400052  | के स्थान पर | महानिदेशक<br>कारंसिल फॉर एडवांस ऑफ पीपल्स एक्शन<br>एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कपाटी)<br>इंडिया हैबिटेड सेंटर, जोन - V,<br>दूसरा तल, नई दिल्ली |
| 3. सुश्री सूरमा पाढ़ी<br>प्लॉट नं. 1267/1ए,<br>नाजपल्ली, भुवनेश्वर,<br>उड़ीसा - 751012   | के स्थान पर | कार्यकारी निदेशक<br>राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)<br>सी 24, जी ब्लॉक,<br>बॉन्ड्रा, मुम्बई                                |
| 4. श्री अजीत कुमार मैती<br>मुख्य कार्यकारी अधिकारी<br>एफ - 3, गीतांजलि पार्क,<br>18/3, कुमुद घोषाल रोड़,<br>अरायदहा,<br>कोलकाता - 700057 | के स्थान पर | डॉ० संतोष राय<br>प्रोफेसर एवं प्रमुख<br>ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज़ खास,<br>नई दिल्ली   |
| 5. सुश्री नंदिता पाठक<br>दीन दयाल शोध संस्थान<br>सियाराम कुटीर, चित्रकूट,<br>जिला सतना, मध्य प्रदेश                                      | के स्थान पर | श्री जी. मुनीरुलम्<br>महासचिव<br>आर.ए.एस.एस., तिरुपति, जिला चित्तूर<br>आन्ध्र प्रदेश   |

लवलीन कक्कड़  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 29th December 2006

**RESOLUTION**

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.

No. 5(3)/2004-D-I (.) Ministry of Steel through its Resolution No. 5(3)/2004-DI dated 20<sup>th</sup> November, 2006 has extended the terms of Steel Consumer Council reconstituted vide its Resolution of even number dated 24<sup>th</sup> March, 2006. The following representative of Union Territory of Dadra & Nagar Haveli to Steel Consumers' Council is hereby nominated, under Para. 7 of Ministry of Steel's Resolution dated 24<sup>th</sup> March, 2006.

S.N	State/U.Ts	Name & address of the nominated member(s)	Remarks
1.	Dadra & Nagar Haveli	Shri Shri Bipul Kumar A.Singh, 201, Shree Kirshna Chamber Chanod Colony, G.I.D.C. Vapi, Distt. Valsad Gujarat- 396 195	vice. Shri Prabhu Bhai Patel, Village Masad Padri Falia, Silvassa Dadra & Nagar Haveli

KUMAR ARVIND SINGH DEO

Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 27th April 2007

No. F.9-4/1999-U.3

Whereas the "Indian Institute of Information Technology (IIIT)", Allahabad was declared a 'Deemed-to-be-University' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 4<sup>th</sup> August, 2000 subject to a review after five years;

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the "IIIT", Allahabad through an Expert Committee constituted for this purpose;

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC has recommended continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to "IIIT", Allahabad for a further period of five years;

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of the status of 'Deemed-to-be-University' granted to "Indian Institute of Information Technology (IIIT)", Allahabad, for a further period of five years, subject to the condition that the said status shall be confirmed on the basis of a 'review' to be conducted by the UGC with the help of an Expert Committee well in advance, before the period of the continued status being allowed now comes to an end.

5. The continuance of the status allowed as in paragraph 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR

Jt. Secy.

## MINISTRY OF WOMEN &amp; CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th April 2007

**RESOLUTION**

No. 10-3/96-IMY/RMK(Vol.II) (Pt.).—

In pursuance of the Provision of Rule 9(1) of Rules and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh (RMK), the Government of India nominates the following persons as Members of Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with immediate effect for a period of three years or until further orders, whichever is earlier: -

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1. Ms. Jarjum Ete<br>Chairperson<br>State Women's Commission<br>Arunachal Pradesh   | Vice | Shri Rakesh Mittal<br>37, Ravi Nagar, Khajrana Road<br>Indore-452008<br>(Madhya Pradesh)  |
| 2. Director General<br>Council for Advance of<br>People's Action & Rural<br>Technology (CAPART)<br>India Habitat Centre<br>Zone-V, 2 <sup>nd</sup> Floor, New Delhi | Vice | Ms. Kranti Arun Sathe<br>5, Aashirwad 16 <sup>th</sup> Cross Road,<br>Khar (West)<br>Mumbai-400052                              |
| 3. Executive Director<br>National Bank for Agriculture<br>& Rural Development<br>(NABARD), C-24, 'G' Block,<br>Bandra, Mumbai                                       | Vice | Ms. Surama Padhy<br>Plot No.1267/1A<br>Nazapalli,<br>Bhubaneswar<br>Orissa-751012   |
| 4. Dr. Santosh Satya<br>Professor & Head<br>Centre for Rural Development<br>& Technology, IIT, Hauz Khas<br>New Delhi   | Vice | Shri Ajit Kumar Maity<br>Chief Executive Officer<br>F-3, Geetanjali Park<br>18/3, Kumud Ghosal Road<br>Araidaha Kolkatta-700057 |

5. Shri G. Muniratnam General Secretary RASS, Tirupati Chittoor District Andhra Pradesh	Vice	Ms. Nandita Pathak Deen Dayal Research Institute Siyaram Kutir, Chitrakot District Sarna Madhya Pradesh
---	------	---

LOVELEEN KACKER  
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2007

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2007